



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड IV

PART I—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 1, 2007/माघ 12, 1928

No. 2]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 2007/MAGHA 12, 1928

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2007

का.नि.आ. 8(अ).—राष्ट्रपति, प्रादेशिक सेना नियमावली, 1948 के पैरा-31 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉक्टर अनिल हब्बु, एमडी, बी-5, बागेश्री सेक्टर, अभिमानश्री को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, पाशन रोड, पुणे को 11 जनवरी, 2007 से प्रादेशिक सेना में ऑनररी कर्नल रैंक प्रदान करते हैं।

[सं. 42446/एच/टीए-4/77/रक्षा/जेएस(जी)]

बिमल जुल्का, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2007

S.R.O. 8(E).— In exercise of powers conferred by para 31 of the Territorial Army Regulations, 1948, the President is pleased to confer Honorary Rank of Colonel in Territorial Army on Dr. Anil Habbu, MD, B-5 Bageshree Sector, Abhimanshree Co-op. Housing Society Ltd., Pashan Road, Pune, with effect from 11th January, 2007.

[No. 42446/AH/TA-4/77/D/JS(G)]

BIMAL JULKA, Jt. Secy.